



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2010/माघ 14, 1931

No. 209]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2010/MAGHA 14, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2010

का.आ. 250(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 180.000 कि.मी. से 182.000 कि.मी. तक के भू-खण्ड (कन्नूर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष तहसीलदार (भूमि अर्जन), रारा-II, थालास्सेरी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 180/000 कि. मी. से 182/000 कि. मी. तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कन्नूर	तलशेरी	कोडीयेरी/ (वयालालम देसोम)	76/2	निजी	बाग	0.0002
				83/10	निजी	बाग	0.0060
			कोडीयेर देसोम	69/1	निजी	नम	0.0020
				70/1ए2	निजी	नम	0.0993
				70/3	निजी	बाग	0.0010
				70/5	निजी	बाग	0.0010
				92/2ए2	निजी	बाग	0.0171
				96/12	निजी	बाग	0.0059

[फा. सं. भाराराप्रा/एलए-2009/नोट/3(ए)/केआरएल/केओजेड]

सुमेर सिंह गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2010

S.O. 250(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, managements and operation of National Highway No.17, on the stretch of land from km 180/000 to km 182/000 (Kannur Section) in Kannur District in the State of Kerala hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Tahsildar (LA) NH-II, Thalassery in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person and the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 180.000 to KM 182.000 (Kannur section) of the National Highway No. 17 in the State of Kerala.

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
1	Kannur	Thalassery	Kodiyeri, Vayalalam Desom	76/2	Private	Garden	0.0002
				83/10	Private	Garden	0.0060
			Kodiyeri Desom	69/1E	Private	Wet	0.0020
				70/1A2	Private	Wet	0.0993
				70/3	Private	Garden	0.0010
				70/5	Private	Garden	0.0010
				92/2A2	Private	Garden	0.0171
				96/12	Private	Garden	0.0059

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2010

का.आ. 251(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2247(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 180.00 कि.मी. से 182.00 कि.मी. (कन्नूर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 31 अक्टूबर, 2009 को "मातृभूमि" और "देशाभिमानी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया और है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 180.000 कि.मी. से 182.200 कि. मी. (कन्नूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम और देसोम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				पुर्ववर्ती उप मण्डल संख्या	उपवर्ती उप मण्डल संख्या				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	कन्नूर	तलशेरी	कोडीयेरी/ (वयालालम)	76/1	76/14	निजी	बाग	0.0026	मीनाक्षी और अन्य, कादानाप्याल्ली घर डाक घर पोकोडे
				76/1	76/15	निजी	बाग	0.0165	मीनाक्षी और अन्य, कादानाप्याल्ली घर डाक घर पोकोडे
				76/2	76/16	निजी	बाग	0.0050	मीनाक्षी और अन्य, कादानाप्याल्ली घर डाक घर पोकोडे
				76/8	76/8	सरकारी	नहर	0.0007	सिंचाई विभाग
				76/9	76/17	निजी	बाग	0.0002	लीला और अन्य, श्रीश्यामलाम, पुल्लायइल मीथाल डाक घर मन्दिर गेट
				77/1	77/12	निजी	बाग	0.1638	1 सरुम्मा बाजायीला पत्नी पोकु, पुल्लायील मीतहल, डाक घर मन्दिर गेट पुत्री मनीना उम्मा
						निजी	भागीय नम और भागीय बाग		2 1. सुधीर पी सी पुत्र अनानन्दन 2. पी सी सुशा, पुल्लायील मीतहल, डाक घर मन्दिर गेट
						निजी	रास्ता		3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		4 पारांगोदाथ कुंहामी उम्मा, बैथुल मुसामीना, पुल्लायील थाजा
				77/2	77/13	निजी	थोदे	0.2681	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	नम		2 सेंवलाराज टी के पुत्र कुनहीरामन, ऐशवरिया डाक घर थिरुवांगाड
						निजी	नम		3 मीनि एम पत्नी सेलवाराज ऐशवरिया डाक घर थिरुवांगाड
						निजी	नम		4 रीना पुत्री चाथु गोविन्दा, डाक घर थिरुवांगाड

1	2	3	4	5		6	7	8	9
						निजी	नम		5 कुरारा योशोदा स्व एल एच पदमाभान के पुत्र रामुन्नी और अन्य के आर बैसकुटस
						निजी	रास्ता		6 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	नम		7 सेवलाराज टी के पुत्र कुनहीरामन, ऐशवरिया डाक घर थिरुवांगाड
						निजी	नम		8 कुरारा योशोदा स्व एल एच पदमाभान के पुत्र रामुन्नी और अन्य के आर बैसकुटस
						निजी	थोदे		9 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				77/4	77/15	निजी	भागीय नम और भागीय बाग	0.1673	1 चैरीयाकांदोथ कुरुनोन लक्ष्मी अम्मा पत्नी गोबिन्दन नामबौर
						निजी	बाग		2 कुंहीपुरायील राघवन नाइर पुत्र कुनहीरामन नाइर उशास मादापीदिका
				77/4	77/16	निजी	बाग	0.0250	चैरीयाकांदोथ कुरुनोन लक्ष्मी अम्मा पत्नी गोबिन्दन नामबौर
				77/5	77/17	निजी	भागीय नम और भागीय बाग	0.0280	1 चैरीयाकांदोथ कुरुनोन लक्ष्मी अम्मा पत्नी गोबिन्दन नामबौर
						निजी			2 सी नारायणी पत्नी कुमारन, पैक्काथुनीयल डाक घर मन्दिर गेट
				77/7	77/7	सरकारी	नहर	0.0160	सिंचाई विभाग
				77/8	77/18	निजी	नम	0.0848	1 1.सुधीर पी सी पुत्र अनानन्दन 2.पी सी सुशा, पुल्लायील मीतहल, डाक घर मन्दिर गेट
						निजी	थोदे		2 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	रास्ता		3 सचिव,तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		4 कुंहीपुरायील राघवन नाइर पुत्र कुनहीरामन नाइर उशास मादापीदिका
				77/9	77/9	सरकारी	नहर	0.0080	सिंचाई विभाग
				77/10	77/20	निजी	बाग	0.0001	चैरीयाकांदोथ कुरुनोन लक्ष्मी अम्मा पत्नी गोबिन्दन नामबौर
				77/11	77/11	सरकारी	नहर	0.0062	सिंचाई विभाग

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				78/1	78/12	निजी	बाग	0.0009	अननेरी दिवाकारान पुत्र कुंहामबु, पोउरनामी पुल्लायील थाजा, डाक घर मन्दिर गेट
				78/3	78/3	निजी	थोदे	0.0663	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	भागीय नम और भागीय बाग		2 ए वी लक्ष्मी और अन्य पत्नी नानु मेसत्री बिनोदीनी निलायाम मादापीदीका
				78/6	78/6	सरकारी	नहर	0.0031	सिंचाई विभाग
				78/8	78/8	सरकारी		0.0068	सिंचाई विभाग
				78/5	78/13	निजी	भागीय नम और भागीय बाग	0.0895	1 शास्त्रा पत्नी बालन (स्व.) लक्ष्मी पुत्री इडाकादावाथ बाची (स्व) नानी पुत्री इडाकादावाथ बाची (स्व) येसोदा पुत्री इडाकादावाथ बाची (स्व), मीथाल चानदरोथ, एस वी यु पी एस, डाक घर मन्दिरगेट, निकट साउ
						निजी	बाग		2 नारोन पुशुकाई मलीनी पत्नी जयाचन्द्रन के एम पुत्र गोपी जलीनी मादापीदीका
						निजी	रास्ता		3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		4 शास्त्रा पत्नी बालन (स्व.) लक्ष्मी पुत्री इडाकादावाथ बाची (स्व) नानी पुत्री इडाकादावाथ बाची (स्व) येसोदा पुत्री इडाकादावाथ बाची (स्व), मीथाल चानदरोथ, एस वी यु पी एस, डाक घर मन्दिरगेट, निकट साउथ वायालाम यु.पी.एस
						निजी	बाग		5 युंहीपारामबाथ मारोली जयाचन्द्रन पुत्र गोदी जलीनि, मादापीदीका
				78/7	78/15	निजी	थोदे	0.3189	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	भागीय नम और भागीय बाग		2 अननेरी दिवाकारान पुत्र कुंहामबु, पोउरनामी पुल्लायील थाजा, डाक घर मन्दिर गेट

1	2	3	4	5		6	7	8	9
						निजी	भागीय नम और भागीय बाग		3 नाल्लाकांदी कैलामानगालावन नारायणी अम्मा पत्नी बालन, चिटटेयानताविदा अक्कालीपरामब डाक धर मन्दिरगेट
						निजी	नम		4 वालीया मुटटाथ कुंहीकान्नान (स्व), के एम जानु और अन्य, चामबाला थाजाकुनीयील, मादापीदीका
						निजी	नम		5 गोबिन्दाकुरुप (स्व) कमलावती और अन्य आरती, चाकीयाथमुकु
						निजी	नम		6 पुल्लियुल्लाथील वालीया मुटटाथ कुंहीकान्नान (स्व)ट के एम जानु और अन्य, चामबाला थाजाकुनीयील, मादापीदीका
						निजी	भागीय नम और भागीय बाग		7 लीला के के पत्नी कोटेरी चाथुकुटटी स्व और अन्य, कायानाराथुम कांडी पेरुमथाटटील
						निजी	भागीय नम और भागीय बाग		8 कादाथनादान पारु पुत्री अनान्दन, मामबाल्ली कायानाराथुम् कांडी पेरुमथाटटील
						निजी	नम		9 कमलावती पुत्री गोबिन्दाकुरुप स्व और अन्य आरती चाकीयाथमुकु
						निजी	नम		10 के एम जानु पत्नी वालिया मुथाथ कुंहीकान्नान स्व और अन्य चमबला थाजाकुनीयील मादापीदीका
				78/9	78/17	निजी	नम	0.3650	1 कादाथनादान पारु पुत्री अनान्दन, मामबाल्ली कायानाराथुम कांडी पेरुमथाटटील
						निजी	नम		2 कुंहीपुरायील राघवन नाइर पुत्र कुनहीरामन नाइर उषास मादापीदीका
						निजी	थोदे		3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	नम		4 कुंहीपुरायील राघवन नाइर उषास मादापीदीका

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					निजी	नम		5 जानु स्व एल एच वानाजा पत्नी कृष्णा और अन्य, चामबला थाजा कुनीयील मादापीदिका
					निजी	नम		6 विजय मुटटाथ कुंहीकान्ना (स्व), के एम जानु और अन्य, चामबाला थाजाकुनीयील, मादापीदीका
					निजी	नम		7 गोबिन्दाकुरुप (स्व) कमलावती और अन्य आरती, चाकीयाथमुकु
					निजी	बाग		8 काटटील अनासाकुमारी पत्नी चान्दरान मादापुरीक्काल ईल्लाथे थाजे, डाक घर मन्दिर गेट
					निजी	बाग		9 कारीगील थाया चन्दरन पुत्र अनान्दन मादापुराक्काल ईल्लाथे थाजे, डाक घर मन्दिर गेट
					निजी	बाग		10 गोबिन्दाकुरुप (स्व) कमलावती और अन्य आरती, चाकीयाथमुकु
					निजी	रास्ता		11 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
					निजी	बाग		12 काददाथानादन वानाजा पत्नी कृष्णा और अन्य, चामबला थाजा कुनीयील मादापीदिका
					निजी	बाग		13 वाजायील चानदरान पुत्र चोचु एल ए निवास निकट अराबीक कोलेज डाक घर पारल
					निजी	बाग		14 पुल्लियुल्लाथील वालीया मुटटाथ कुंहीकान्ना (स्व) के एम जानु और अन्य, चामबाला थाजाकुनीयील, मादापीदीका
					निजी	बाग		15 कुटटीयान अलाक्कादान सदानान्दान थेजास कोलोथ वीदु डाक घर पारल
					निजी	बाग		16 कुटटरी चाथुकुटटी स्व) पत्नी लीली और अन्य कायानास्थुमकान्दी पेरुमथाटटील

1	2	3	4	5		6	7	8	9
						निजी	बाग		17 पुल्लियुल्लाथील वालीया मुट्टाथ कुंहीकान्नान (स्व) के एम जानु और अन्य, चामबला थाजाकुनीयील, मादापीदीका
				78/10	78/10	सरकारी	नहर	0.0012	सिंचाई विभाग
				78/11	78/11	सरकारी	नहर	0.0066	सिंचाई विभाग
				79/9	79/35	निजी	बाग	0.0045	अननेरी दिवाकारान पुत्र कुंहामबु, पोउरनामी पुल्लाथील थाजा, डाक घर मन्दिर गेट
				79/10	79/36	निजी	नम	0.0017	कुंहीपुरायील माथु स्व) पत्नी कुनहीकान्नान, एल एच अम्म सांथा लीला, पदमीनि, असासीनथवीदा कोदीयेरी (कुट्टीवायल) डाक घर थिरुवांगाड
				83/3	83/11	निजी	बाग	0.0240	जयप्रकाशन पुत्र कान्नान चेल्लाथ मादापुरा
				83/4	83/12	निजी	आम रास्ता	0.0003	सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				83/5	83/15	निजी	बाग	0.3063	1 सान्था पत्नी (स्व) चामबला कोट्टायी कुमारन और अन्य चामबला हाउस मदापीदेका डाकघर मन्दिर गेट
						निजी	बाग		2 बानुमती और अन्य एल एच आफ चामबला कोट्टायी जानु, चामबला हाउस मदापीदेका डाकघर मन्दिर गेट
						निजी	बाग		3 बानुमती और अन्य एल एच आफ चामबला कोट्टायी नानी चामबला हाउस मदापीदेका डाकघर मन्दिर गेट
						निजी	बाग		4 चमबला कोट्टायी, भानुमती और अन्य चामबला हाउस मदापीदेका डाकघर मन्दिर गेट
						निजी	बाग		5 चमबला कोट्टायी, भानुमती साना और अन्य चामबला हाउस मदापीदेका डाकघर मन्दिर गेट
						निजी	आम रास्ता		6 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				83/6	83/16	निजी	आम रास्ता	0.1023	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 अदीचायाथापारामबाथ कान्डी सबीरा पुत्री कुंहीमी अदीचायाथापारामबाथ कान्डी जमादापीदिका
						निजी	बाग		3 अदीचायाथापारामबाथ कान्डी कुंहीमी ए वी हाउस जमादापीदिका
						निजी	बाग		4 अदीचायाथापारामबाथ कान्डी पाथोतयी शारफस ए वी हाउस जमादापीदिका
				83/7	83/17	निजी	बाग	0.2095	1 केलोथ सुधीर पुत्र पदमानाभान ऐश्वरया मदापीदिका
						निजी	आम रास्ता		2 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		3 अलीमा पत्नी युसेफ हाजी, फीरोज महल मदापीदिका
				83/8	83/18	निजी	आम रास्ता	0.1476	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 टी शाहीघा बानु, टी रैहाना बानु, टी मुहम्मद अलताफ, मुहम्मद अफसल, एफ महाबोबी पत्नी मोदीन खान स्व, थाजे चामबला हाउस मदापीदिका
				83/9	83/19	निजी	बाग	0.0096	पुल्लामबाल्ली वासुदेवन (स्व) पत्नी थाटटीपरावन लक्ष्मी संगीत, लेखा, चामपाल विदु मन्दिर गेट
				83/10	83/20	निजी	आम रास्ता	0.0100	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 जानु कोल्लाकान्डी एल एच जयश्री वसन्ता, प्रेमा और सेलवाराज चामबला विदु मादापीदिका
				85/4	85/11	निजी	बाग	0.0047	रायारोथ थाजेकुनीयील श्रीनाथ पुत्र माधवन आशाना डाक घर मदापीदिका
			कोडीयेरी/ (कोडीयेरी देसोम)	59/1ई1	59/6	निजी	बाग	0.0152	नारायण देचोती कुट्टीपुरा हाउस डाक घर पारल
				67/2	67/9	निजी	बाग	0.3041	1 मनीक्कोथ सवीन्द्रनाथ पुत्र गोपालन कोट्टायुर गांव येलागीरि तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					निजी	बाग		2 चिरुथी स्व एल एच लक्ष्मी गोरी, विजयन रोहीण् नंतीनि स्थी रायारोथ (एच) डाक घर मन्दिर गेट
					निजी	बाग		3 पी के राघवन पुत्र कारथियाने स्व, पी के भारगधवी पत्नी पी के राघवन, भास्करन वेल्लारामकाडु हाउस, डाक घर पारल
					निजी	बाग		4 बालाचन्द्रन और अन्य
					निजी	बाग		5 रायारोथ कुदाकाई लील्ल पत्नी कुनहीरुमन रायारोथ हाउस मादापीडीका
					निजी	बाग		6 प्रकाशन रायरोथ, काटटीनटावीदा, डाक घर ईंगेयील पीडीका
					निजी	बाग		7 पालीयाकारा सीतेसन पुत्र देवाकी रायारोथ हाउस डाक घर पारल (2)पी के राहीनी पुत्री कुनहीकान्नान नानु पी के पुत्र कुंहीकान्नान और अन्य
					निजी	बाग		8 पाल्तीयाकारा पुष्पालता पुत्री देवाकी रायारोथ हाउस डाक घर मन्दिर गेट
				67/4	67/11	निजी	बाग	0.2444 1 पाररामबाथ कनीयील वालसाला, बापारथ राजन पुत्र अचुथान, पुथीया वीथल, मादापीदिका डाक घर पारल
					निजी	बाग		2 1.राजन, 2. दयानन्दन रवीन्द्रन, पुथीयावितेल, मादापीदकी
					निजी	बाग		3 1.दयानन्दन, रवीन्द्रन, मारोली हाउस निकट इरांहाली पुल चिराक्कारा
					निजी	बाग		4 वरपरथ लीला पत्नी कृष्णा कौसथुभाम मादापीदिका
					निजी	बाग		5 श्यामाला पत्नी हारीनदरानाथ, श्रीहरि मादापीदिका
					निजी	बाग		6 हारीनदरानाथ वी सी श्रीहरि मादापीदिका
					निजी	रास्ता		7 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				67/5	67/12	निजी	बाग	0.0393	1 पादिकाल सुरेन्द्रन पुत्र कुंहीरामन, पुथीया वीतील हाउस मादापीदिका, डाक घर पारल
						निजी	बाग		2 कालाकांदी बालासन पुत्र अनान्दन, अनान्द, डाक घर काबुमबागम
						निजी	रास्ता		3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				67/8	67/13	निजी	रास्ता	0.4584	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 के ई जनाधन नामबीर पुत्र अम्मु अम्मा और अन्य कोरोथ ईडावाना अम्मु अम्मा स्व) माधवन मामबीर स्व)
						निजी	बाग		3 कोरोथ ईडावाना दामोदरन नामबीर पुत्र देवु अम्मा और अन्य
						निजी	बाग		4 सरस्वती पुत्री देवाकीम्मा, केयर आफ राधाकृष्णा, पुलीहेलील, मादापीदिका
						निजी	बाग		5 पदमीनि के ई पत्नी राधवन अपसरा डाक घर काबुमबागम
						निजी	बाग		6 कोरोथ ईडावाना वानाजा केयर औफ एम के नामबीर, गोकुलाम चिरिकांदोथ मादापीदिका, डाक घर पारल
						निजी	रास्ता		7 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				68/2ए	68/4	निजी	बाग	0.0149	जयश्री के सी पत्नी सुधाकरन, गुरुक्कालाविदा डाक घर पारल
				68/2ए	68/5	निजी	बाग	0.0451	1 कौवुम्माळ कुंहीकान्दी राबीया पत्नी अबुबाकर
						निजी	बाग		2 नानी अम्मा और अन्य
						निजी	रास्ता		3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				68/2ए	68/6	निजी	रास्ता	0.1695	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 कुरुवांथावीदा प्रमाबाथ कांदी अबुबाकर पुत्र मोइदु, सुबाइदा मंजील मादापीदिका

1	2	3	4	5		6	7	8	9
						निजी	बाग		3 कुरीक्कालाविदा चिरुथाई केयर आफ भास्करन देवाकी अम्मा, कृष्णा नाईर
						निजी	बाग		4 सपना पुत्री पुथुसेरी मनीक्कोथ भारगवाई, सपना डाक घर चिराक्कारा
						निजी	बाग		5 पुथुस्सेरी मनीक्कोथ भास्करन पुत्र एम सी कुंहीरामन, ममबीर गुरुक्कालावीदा डाक घर पारल
						निजी	बाग		6 सचिव,तालास्सेरी नगरपालिका
				68/3ए1ए	68/7	निजी	रास्ता	0.2497	1 सचिव,तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 लक्ष्मण के पी पुत्र कुंहीरामन और अन्य येशोदालायम डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 सोया पत्नी निर्मलकुमार येशोदालायम,डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 सागीना पत्नी पेरादीपकुमार प्राणवम, नर येशोदालायम डाक घर पारल
						निजी	बाग		5 कोनोथ चांकोरोथ अबीती पुत्र बावाची, डरेमस पेरीमुंदीरी पेटटीपालम नई माहे
				68/3ए1ए	68/9	निजी	बाग	0.0661	लक्ष्मी के पी पत्नी दामोदरन (स्व) और अन्य लक्ष्मी निवास डाक घर पारल
				68/3ए	68/10	निजी	बाग	0.2483	1 1. कमलाकशी ए पी पत्नी फालगुनान 2. सवित्री ए पी पत्नी अजयकुमार देवाकिनीलायम डाक घर नालुथार माहे
						निजी	बाग		2 रामाचन्द्रन जी पुत्र नारायण गुरुक्कालाविदा डाक घर पारल
						निजी	रास्ता		3 सचिव,तालास्सेरी नगरपालिका
				68/3	68/12	निजी	रास्ता	0.2226	1 सचिव,तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 अबुबाकर कोवुम्माल कुंहीक्कान्दी पुत्र अबु बुशरा मंजील ईडाथाट्टा पारमव, डाक घर पारल

1	2	3	4	5		6	7	8	9
						निजी	बाग		3 ब्बालाचरण पुत्र कृष्णा जुबीली, इडाटटहाटटा थाझा डाक घर पारल
				92/1	92/6	निजी	बाग	0.2279	1 काक्कादावाथ सथीष चन्द्रन पुत्र सेखारन और अनय नानुथारा, माहे
						निजी	बाग		2 अदव राजेन्द्रनाथ और अन्य,पुर्व नामाथ डाक घर नालुथार, माहे
						निजी	बाग		3 1. मोहनान वी वी पुत्र स्व जानु वी वी और अन्य वान्नाथान वीदु डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 राजामनी पुत्री कोरलया, लिटल फलावर ईस्टे बीनाची, साउथ वायानाद और अन्य
				92/2ए2	92/8	निजी	बाग	0.3000	1 1. पी पी पदमावती 2.माथु अम्मा, थुनदीकान्दी हाउस डाक घर कारीयाड पुत्र पैथाल नाईर पुथीया रोड करीयाड साउथ
						निजी	बाग		2 1.बालन पुत्र स्व अम्मालु अम्मा और अन्य आई नाडुपरमबाथ हाऊस डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 1.राधाकृष्णन पुत्र स्व देवाकी अम्मा और अन्य रायारोथ परामबाथ डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 केल्लामांगालवन जानकी अम्मा 2. मोहनन् पुत्र स्व मीनाक्षी अम्मा और अन्य दायारोथ मीथाल डाक घर पारल
						निजी	रास्ता		5 सचिव,तालास्सेरी नगरपालिका
				92/2ए3	92/9	निजी	बाग	0.0475	ररोहिणी पुत्र देवी और अन्य कृष्णा मेलायम नर श्रीकृष्णा बाजान समीति चोदिकोटटा
				92/2८	92/10	निजी	बाग	0.0622	1 श्रीनिवान पुत्र नानी अम्मा स्व और अन्य
						निजी	बाग		2 नारायणी और अन्य पारेम्माल पारल
						निजी	रास्ता		3 सचिव,तालास्सेरी नगरपालिका

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				92/2ए1	92/11	निजी	रास्ता	0.3451	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 पारमबाथ दमोदरन नाईर पुत्र अप्पा नाईरअलीस रामुन्नी नाईर पारमबाथ हाउस डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 ए पी सुधीनद्रान पुत्र अचुथान अमबालापारमबाथ हाउस डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 परमबाथ राधवन नाईर पुत्र नारायण नाईर तिराग डाक घर पांदाक्काल
				93/1ए	93/8	निजी	बाग	0.2258	1 थोटटीलील येशोदा पत्नी गोपालन थोटटीलील डाक घर पारल
						निजी	बाग		2 थोटटीलील हरीदासन पुत्र नारायण थोटटीलील हाउस, डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 थोटटीलील कल्याणी पत्नी नारायण स्व. और अन्या थोटटीलील हाउस, डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 थोटटीलील हरीदासन पुत्र नारायण थोटटीलील हाउस, डाक घर पारल
						निजी	रास्ता		5 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				93/2ए	93/11	निजी	बाग	0.1104	1 1. थोटटीलील जानु 2. अशोकन, थोटटीलील डाक घर पारल
						निजी	बाग		2 थोटटीलील अजीथा पत्नी चन्द्रन थोटटीलील, डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 थोटटीलील येशोदा पत्नी गोपालन थोटटीलील डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 थोटटीलील हरीदासन पुत्र नारायण थोटटीलील हाउस, डाक घर पारल
				93/2ए	93/10	निजी	रास्ता	0.1015	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 कानाटदुम्माल महेश कुमार पुत्र विजयलक्ष्मी कानाटदुम्माल, थुवाक्कुन्नु कोटावाल्तुर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				93/3	93/12	निजी	रास्ता	0.0440	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 टी के इन्द्रणी पत्नी कुंहीकान्ना स्व और अन्य थोटटीलील डाक घर
						निजी	बाग		3 थोटटीलील साथी पत्नी कृष्णा कोरामबाथ काप्पुम्माल कोजुर
				96/2	96/14	निजी	बाग	0.0290	1 1.बीना चन्द्रशेखरन पत्नी चन्द्रशेखरन स्व और अन्य कुलीरमा डाक घर पारल
						निजी	बाग		2 सुधामीनी पत्नी बालाकृष्णन और अन्य, पिथुरुचाया, रायाराथ पारामबु डाक घर पारल
				96/11ए	96/18	निजी	बाग	0.2505	1 देवाती पत्नी चिन्दान, चानदरोथ डाक घर थाजे चोवा
						निजी	बाग		2 रोहिणी पुत्री स्व चिरुनामकान्दी थोटटीली ओटटापीलावन नारायणी और अन्य चिरुनामकान्दी हाउस डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 सी के जानकी पत्नी बालन नादुकांदी हाउस पुत्र पाथिरीयाड
				96/11ए	96/20	निजी	बाग	0.2715	1 चिरुनाम कान्दी थोटटीली ओटटापेलावन रोहिणी
						निजी	बाग		2 थोटटीली साथी पत्नी कृष्णा थोरमबाथ काप्पुम्माल
						निजी	बाग		3 मरीयु कुंही नेल्लीक्कायील मेखीना जेजे रोड तालास्सेरी
						निजी	बाग		4 मानहु पत्नी कादेर साफा डाक घर पारल
						निजी	बाग		5 ददेवोती पत्नी चिनदान चांदरोथ थिलान्नुर रोड थाजे चोवा, 2 निशिता
						निजी	बाग		6 पा के शहीद पुत्र कादेर साफा कोटटीथ डाक घर पारल
						निजी	रास्ता		7 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				96/10ए	96/16	निजी	रास्ता	0.0014	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					निजी	बाग		2 कान्नान नाईर थाजे कुन्नापाडी डाक धर पारल
				96/10८	96/17	निजी	रास्ता	0.0769
					निजी	बाग		2 कान्नान नाईर थाजे कुन्नापाडी डाक धर पारल
					निजी	बाग		3 माधवन नाईर कुनीयील हाउस नर पंकज तालकीस नानगास्थ पीदिका
					निजी	बाग		4 सुरेन्द्रन पुत्र कृष्णान खिजाक्कायील डाक धर पारल
				96/12	96/22	निजी	रास्ता	0.0800
					निजी	बाग		2 माधवी मीथाले कुन्नापाडी पत्नी कुंहीकान्नान मीथाले कुन्नापाडी
					निजी	बाग		3 नारायणी मीथाले कुन्नापाडी पत्नी चन्दु थाजे चोवा थिलान्नुर
					निजी	बाग		4 1.लक्ष्मी, 2.देवाती 3, नारायणी मीथाले कुन्नापाडी डाक धर पारल
				96/8	96/15	निजी	बाग	0.0580
					निजी	बाग		1 1.सुरेन्द्रन पुत्र चिरीया, किजाक्कायील डाक धर पारल
					निजी	बाग		2 देवकी अम्मा पत्नी रायाराप्पान किजाक्कायील डाक धर पारल
					निजी	बाग		3 पदम्मानाभन, थांकाम, ओमाना, सती लक्ष्मीणा, पुषपावल्ली, सुरेश
				96/13९	96/23	निजी	बाग	0.0386
					निजी	बाग		1 पदम्मानाभन, थांकाम, ओमाना, सती लक्ष्मीणा, पुषपावल्ली, सुरेश, बाबु चन्द्रन कालारी परामबात हाउस डाक धर पारल
					निजी	बाग		2 1.बालन वालीया मीथाल हाउस डाक धर पारल 2. राधवन किजाक्कायील डाक धर पारल
				96/13८	96/24	निजी	बाग	0.0406
								1 पदम्मानाभन, थांकाम, ओमाना, सती लक्ष्मीणा, पुषपावल्ली, सुरेश, बाबु चन्द्रन कालारी परामबात हाउस डाक धर पारल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					निजी	बाग		2 1. बालन वालीया मीथाल हाउस डाक धर पारल 2. राघवन किजाक्कील डाक धर पारल
				97/12	97/13	निजी	बाग	0.0039 आर गीतांजली पुत्री रामादासन थियुल्लाथील स्व श्रीपुरम के एस ई बी कार्यलय मादापीदक
				98/1ए	98/7	निजी	बाग	0.0142 पुथलोम कुंनथ यशोदा पत्नी नानु, वाल्लील परमबाथ (एच) समीथा निवास, वदीयील पीदकीया डाक धर इरांहोली
				98/1८	98/8	निजी	बाग	0.2711 1 भारगवी पत्नी गोविन्दन और अन्य कापाचेरी हाउस डाक धर पारल 2 बालाचन्द्रन और गोपालन नाईर स्व और अन्य 3 वी रामाचन्द्रन, काप्पाचेरी हाउस डाक धर पारल 4 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग	
						निजी	बाग	
						निजी	रास्ता	
				98/5	98/10	निजी	बाग	0.1131 1 के पी साईनाबा और अन्य जुबेरीया और सलीम पत्नी उम्मेर कुनहीपारामबाथ डाक धर पारल 2 सी सुहारा पत्नी अबुतया चेरीयाम्माल, डाक धर चिराक्कारा 2. के पी युसेलफ पुत्र मानु थाबाथुल साफा गरामाथी 3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग	
						निजी	रास्ता	
				98/6ए	98/11	निजी	रास्ता	0.0656 1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका 2 सरस्वती पत्नी साचीदानन्दन और अन्य ईडाक्कापाचेरी हाउस डाक धर पारल 3 पी विजयन श्रीलक्ष्मी डाक धर पारल 4 सी के बालन पुत्र कुनहामबु नाईर, इडाक्कापाचेरी हाउस डाक धर पारल
						निजी	बाग	
						निजी	बाग	
						निजी	बाग	

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				99/1 त	99/5	निजी	बाग	0.3672	1 सलीम पुत्र हमीद पारेन्दावीदा डाक घर पाल्लोर
						निजी	बाग		2 ईरान्हीमवराथ मीथाल श्रीधरण पुत्र शंकरन ग्रामथी डाक घर चोचकील
						निजी	बाग		3 फोउसीया पुत्री सुलेखा, शरफरास चेम्बरा डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 पाल्लीपारमबाथ मजीदा पुत्री शाहीदा स्व और शहिद माईनर चेटदुकुजीयील हाउस् डाक घर पारल
						निजी	बाग		5 रसैया पुत्री सुलेखा शरफरास चेम्बरा डाक घर पारल
						निजी	बाग		6 शाहीदा पुत्री सुलेखा शरफरास चेम्बरा डाक घर पारल,
				99/172	99/11	निजी	बाग	0.0700	कोरोथ मैदु हाजी पुत्र ईस्सा, नफीसा मंजील डाक घर पारल
				99/1६	99/8	निजी	बाग	0.0096	कोरोथ मैदु हाजी पुत्र ईस्सा, नफीसा मंजील डाक घर पारल
				99/171	99/9	निजी	बाग	0.1273	मीथाले वितील सोमन मास्टर पुत्र थाटटारीयील कृष्णा मास्टर और अन्य मनीक्कोथ हाउस् डाक घर पारल
				99/1२	99/3	निजी	बाग	0.2150	1 वसन्था पत्नी नारायण स्व और अन्य
						निजी	बाग		2 मीथाले वितील चन्द्रण पुत्र अचुथान मेथाले वितील डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 मीथाले वितील उषा, मेथाले वितील डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 मीथाले वितील श्यामला मेथाले वितील डाक घर पारल
						निजी	बाग		5 वसन्था पत्नी लक्ष्मण स्व और अन्य ईअटीयापल्लीयील कोदीयेरी निकट हैल्थ केन्द्र

1	2	3	4	5		6	7	8	9
						निजी	बाग		6 मीथाले वितील प्रकाशन पुत्र लक्ष्मी, मेथाले वितील डाक घर पारल
						निजी	बाग		7 मीथाले वितील चन्द्रन पुत्र पाराकांदी अनुथान स्व और अन्य
				99/17	99/12	निजी	बाग	0.2771	1 अहम्मेद पुत्र पाचीलागाटे, उम्मेरकुटी स्व और अन्य चालाकारा डाक घर नाल्लुथारा
						निजी	रास्ता		2 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				99/18	99/13	निजी	रास्ता	0.1329	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 पाचिलागटे नसीमा पत्नी योसाफ, निनास डाक घर पारल
						निजी	बाग		3 के के याशोदा पत्नी गोपालन स्व और अन्य बरीचिलात माझी निवास डाक घर पारल
						निजी	बाग		4 के के अजीता कुमारी पुत्री गोपालन माझी निवास डाक घर पारल
				100/3	100/11	निजी	आम रास्ता	0.0182	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 सुबाइदा पत्नी अबुबाकर हाजी और अन्य अश्याना डाक घर पारल
				100/4	100/12	निजी	बाग	0.2676	1 कुंहीपुराथील बीबी और अन्य शामीमा मंजील डाक घर पारल
						निजी	बाग		2 कुंहीपुराथील सफीया पत्नी अबु शामीमा मंजील डाक घर पारल
						निजी	रास्ता		3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				100/5	100/14	निजी	रास्ता	0.1926	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
						निजी	बाग		2 हामशा हाजी पुत्र अबुबाकर ईथमीनान डाक घर पारल
						निजी	आम रास्ता		3 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
				100/7	100/16	निजी	रास्ता	0.0114	1 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					निजी	बाग		2 सी एच नासीरा (चेतयाम कान्दी) एएल सीफा डाक घर पारल
				100/8	100/17	निजी	बाग	0.1712
					निजी	रास्ता		1 सी एच नासीरा (चेतयाम कान्दी) एएल सीफा डाक घर पारल
					निजी	बाग		2 सचिव, तालास्सेरी नगरपालिका
					निजी	बाग		3 पी टी ईसमाइल पुत्र मोइदु हाजी स्व और अन्य कान्दोथ हाउस डाक घर पारल
					निजी	बाग		4 कौदोथ रासीया पत्नी अबोबाकेर, कान्दोथ हाउस डाक घर पारल
					निजी	बाग		5 पी टी उसमान कुट्टी पुत्र मोइदु हाजी कान्दोथ हाउस डाक घर पारल
				100/9	100/18	निजी	बाग	0.0023
								कार्थीयायानी पत्नी नानु और अन्य कुंकी मेदुक्कांतेवीदा डाक घर पारल
				100/10	100/19	निजी	बाग	0.0518
					निजी	बाग		1 रशमा पुत्री मोइदु हाजी नफीशा मंजील डाक घर पारल
					निजी	बाग		2 कोरोथ माइदु हाजी नफीशा मंजील डाक घर पारल
					निजी	बाग		3 शाहीना पुत्र मोइदु हाजी नफीशा मंजील डाक घर पारल

[फा. सं. भाराप्र/एलए-2009/नोट/3(ए)/केआरएल/केओजेड]

सुमेर सिंह गुलिया, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2010

S.O. 251(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O.2247(E), dated the 3rd September, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for

building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No.17 on the stretch of land from Km. 180.00 to Km.182.00 (Kannur Section) in Kannur District in the State of Kerala;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Mathrubhoomi" and "Deshabhimani" both dated the 31st October, 2009, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 180.00 to km 182.200 (Kannur Section) of the National Highway No.17 in the State of Kerala.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village and desom	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in hectar)	Name of the land owner / Interested parties
				Before sub division	after sub division number				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Kannur	Thalassery	Kodiyeri/ (Vayalalam)	76/1	76/14	Private	Garden	0.0026	Meenakshi and others, Kadanappally House, P.O.Pookode.
				76/1	76/15	Private	Garden	0.0165	Meenakshi and others, Kadanappally House, P.O.Pookode.
				76/2	76/16	Private	Garden	0.0050	Meenakshi and others, Kadanappally House, P.O.Pookode.

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				76/8	76/8	Govt.	canal	0.0007	Irrigation Dept.
				76/9	76/17	Private	Garden	0.0002	Leela and others ,Sreeshylam, Pullayil meethal, P.O.Temple gate
				77/1	77/12	Private	Garden	0.1638	1 Sarumma Vazhayil,W/o.Pocku ,Pullayil Meethal ,P.O.Temple gate ,D/o. Amina Umma.
						Private	Partially wet and partially garden		2 1)Sudheer.P.C S/o Anandan 2)P.C.Susha,Pullayil meethal,P.O.Templegate .
						Private	road		3 Secretary, Thalassery Municipality.
						Private	Garden		4 Parangodath Kunhami Umma,Baithul musamina,Pullayil Thazha.
				77/2	77/13	Private	Thode	0.2681	1 Secretary, Thalassery Municipality.
						Private	wet		2 Selvaraj.T.K, S/o Kunhiraman "Aishwarya" P.O.Thiruvangad
						Private	wet		3 Mini.M W/o Selvaraj.T.K "Aishwarya" P.O.Thiruvangad .
						Private	wet		4 Reena,D/o Chathu "Govind" P.O Thiruvangad .
						Private	wet		5 Kurara Yeshoda (late) L.H, . Padmanabhan.K ,S/oRamunni,and others K.R.Buiscuts..
						Private	Road		6 Secretary, Thalassery Municipality.
						Private	wet		7 Selvaraj.T.KS/o Kunhiraman "Aishwarya" P.O.Thiruvangad.
						Private	wet		8 Kurara Yeshoda (late) , Padmanabhan & others.K,S/oRamunni,K.R .Buiscuts.
Private	Thode	9 Secretary, Thalassery Municipality.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				77/4	77/15	Private	partially wet and partially garden	0.1673	1 Cheriyaandoth Kurunon Lakshmi Amma.,W/o Govindan Nambiar.
						Private	Garden		2 Kunhipurayil Raghavan Nair S/o. Kunhiraman Nair, Ushass, Madapeedika.
				77/4	77/16	Private	Garden	0.0250	Cheriyaandoth Kurunon Lakshmi Amma.,W/o Govindan Nambiar
				77/5	77/17	Private	partially wet and partially garden	0.0280	1 Cheriyaandoth Kurunone Lakshmi Amma.,W/o Govindan Nambiar.
						Private	"		2 C.Narayani, W/o. Kumaran, Paikkatkuniyil, P.O.Temple Gate.
				77/7	77/7	Govt.	canal	0.0160	Irrigation Dept.
				77/8	77/18	Private	wet	0.0848	1)Sudheer.P.C 2)P.C.Susha,Pullayil meethal,P.O.Templegate
						Private	Thode		2 Secretary Thalassery municipality.
						Private	road		3 Secretary Thalassery municipality.
						Private	Garden		4 Kunhami.A.P,Baithul musamina,pullayil thazha.
				77/9	77/9	Govt.	canal	0.0080	Irrigation Dept.
				77/10	77/20	Private	Garden	0.0001	Cheriyaandoth Kurunone Lakshmi Amma.,W/o Govindan Nambiar.
				77/11	77/11	Govt.	canal	0.0062	Irrigation Dept.
				78/1	78/12	Private	Garden	0.0009	Anneri Divakaran ,S/o Kunhambu,Pournami,Pullayil Thazha,P.O.Tempilgate,
				78/3	78/3	Private	Thode	0.0663	1 Secretary Thalassery municipality.
						Private	partially wet and partially garden		2 A.V.Lakshmi and others, W/o.Nanu Mestri, Vinodini Nilayam, Madapeedika.
				78/6	78/6	Govt.	canal	0.0031	Irrigation Dept.
				78/8	78/8	Govt.		0.0068	Irrigation Dept.
				78/5	78/13	Private	Partially wet and partially garden	0.0895	1 Sharadha W/o. Balan (Late) , Lakshmi D/o.Edakadavath Bachi (late), Nani, D/o.Edakadavath Bachi (late) YeshodhaD/o.Edakadavath Bachi (late) Meethal chandroth, S.V.U.P.S, P.o.Temple gate.Near South Vayalam
						Private	Garden		2 Naron puthukai Malini, W/o.Jayachandran.K.M S/o Gopi,Jlini, Madapeedika.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Private	road		3 Secretary Thalassery municipality.
					Private	Garden		4 Sharadha W/o. Balan (Late) , Lakshmi D/o.Edakadavath Bachi (late), Nani, D/o.Edakadavath Bachi (late) YeshodhaD/o.Edakadavath Bachi (late) Meethal chandroth, S.V.U.P.S, P.o.Temple gate.Near South Vayalam U.P.S
					Private	Garden		5 Kunhiparambath Maroli Jayachandran. S/o Govi,Jlani, Madapeedika,
				78/7	78/15	Private	Thode	0.3189 1 Secretary Thalassery municipality.
					Private	partially wet and partially garden		2 Anneri Divakaran.,S/o Kunhambu,Pournami,Pullayil Thazha,P.O.Tempilgate,
					Private	partially wet and partially garden		3 Nallakandy Kelamangalavan Narayani Amma . W/o Balan, Chettiayantavida. Akkaliparamb, P.O.Temple Gate.
					Private	wet		4 Valiya Muttath Kunhikannan(late), K.M.Janu and others , Chambala Thazhakuniyil, Madapeedika,
					Private	wet		5 Govindakurup (late), Kamalavathy and others , 'Arathi' , Chakiyathmuku
					Private	wet		6 Puliullathil Valiya Muttath Kunhikannan(late), K.M.Janu and others , Chambala Thazhakuniyil, Madapeedika,
					Private	partially wet and partially garden		7 Leela.K.K, W/ o Kooteri chathukutti (late) and others , 'Kayanarathum kandy', Perumthattil .
					Private	Partially wet and partially garden		8 Kadathnadan Paru, D/o.Anandan, ' Mamballi kayanarathum kandy',Peruthattil.
					Private	wet		9 Kamalavathy D/o.Govindakurup (late)and others,, 'Arathi " Chakiyathmuku,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Private	wet		10 K.M.Janu W/o. Valiya Muttath Kunhikannan(late),and others , Chambala Thazhakuniyil, Madapeedika,
				78/9	78/17	Private	wet	0.3650 1 Kadathnadan Paru D/o .Anandan,' Mamballi kayanarathum kandy' Peruthattil .
					Private	wet		2 Kunhipurayil Raghavan Nair 'Ushass' Madapeedika.
					Private	Thode		3 Secretary Thalassery municipality.
					Private	wet		4 Kunhi purayil Raghavan nair Ushass Madapeedika
					Private	wet		5 Janu (late)L.H. - VanajaW/oKrishnan and others ,Chambala thazha kuniyil madapeedika,
					Private	wet		6 Valiya Muttath Kunhikannan(late), K.M.Janu and others , Chambala Thazhakuniyil, Madapeedika,
					Private	wet		7 Govindakurup (late), Kamalavathy and others,Arathi, Chakivathmuku.
					Private	Garden		8 Kattil Anasakumari, W/o. Chandran, Madapurakkal Illathe thaze , P.O.Temple Gate.
					Private	Garden		9 Karingil Thaya Chandran, S/o/ Anandan, Madapurakkal Illath Thazha , P.O.Temple Gate.
					Private	Garden		10 Govindakurup (late), Kamalavathy and others,Arathi, Chakivathmuku.
					Private	road		11 Secretary Thalassery municipality.
					Private	Garden		12 Kadathanadan VanajaW/o Krishnan and others, Chambala Thaze kuniyil, Madapeedika, .
					Private	Garden		13 Vazhayil Chandran, S/o. Checku, L.C.Nivas, Near Arabic College . P.O.Paral.
					Private	Garden		14 Puliyullathil Valiya Muttath Kunhikannan(late), K.M.Janu and others ,Chambala Thazhakuniyil, Madapeedika,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Private	Garden		15 Kuttiyan Alakkadan Sadanandan, 'Thejas', Kooloth Veedu, P.O. Punool.
					Private	Garden		16 Kutteri Chathukutty (late) Wife Leela and others, Kayanarthumkandy, Perumthattil.
					Private	Garden		17 Puliyullathil Valiya Muttath Kunhikannan(late), K.M. Janu and others, Chambala Thazhakuniyil, Madapeedika,
				78/10	78/10	Govt.	canal	0.0012 Irrigation Dept.
				78/11	78/11	Govt.	canal	0.0066 Irrigation Dept.
				79/9	79/35	Private	Garden	0.0045 Anneri Divakaran., S/o Kunhambu, Pournami, Pullayil Thazha, P.O. Tempilgate,
				79/10	79/36	Private	wet	0.0017 Kunhipurayil Mathu(late) W/o. Kunhikannan, L.H Ammu, Santha, Leela, Padmini, 'Asarintavida', Kodiyei, (Kuttivayal) P.O. Thiruvangad
				83/3	83/11	Private	Garden	0.0240 Jayaprakasan S/o Kannan, chellath madapura
				83/4	83/12	Private	public way	0.0003 Secretary Thalassery Municipality.
				83/5	83/15	Private	Garden	0.3063 1 Santha W/o. (late) Chambala Kottayi Kumaran and others, Chambala House Madapeedika, P.O Temple gate
					Private	Garden		2 Banumathi and others (L. Hs of Chambala Kottayi Janu), Chambala House, Madapeedika, P.O Temple gate,
					Private	Garden		3 Banumathi and others (L.Hs. of ,Chambala Kottayi Nani) ,Chambala House Madapeedika ,P.O Temple gate,
					Private	Garden		4 Chambala Kottayi Bhanumathi and others ,Chambala House Madapeedika ,P.O Temple gate.
					Private	Garden		5 Chambala Kottayi Banumathi, Shantha and others ,Chambala House Madapeedika ,P.O Temple gate.
					Private	public way		6 Secretary Thalassery Municipality.
				83/6	83/16	Private	public way	0.1023 1 Secretary Thalassery Municipality.

1	2	3	4	5		6	7	8	9		
						Private	Garden		2	Adichyathparambath kandy Sabira. D/o Kunhami , Adichyathparambath kandy Imadapeedika	
						Private	Garden		3	Adichyath parambath kandy Kunhami . . [A.P.House]madapeedika	
						Private	Garden		4	Adichyathparambath kandy Pathooty.,Sharfas , [A.P.House]madapeedika	
					83/7	83/17	Private	Garden	0.2095	1	Keloth Sudheer S/o Padmanabhan , 'Aiswarya', Madapeedika.
					Private	public way	2	Secretary Thalassery Municipality.			
					Private	Garden	3	Aleema W/o Yousef haji, Firoz mahal Madapeedika.			
					83/8	83/18	Private	public way	0.1476	1	Secretary Thalassery Municipality.
					Private	Garden	2	T. Shahidha banu , T. Raihana Banu, T. Muhammed Althaf, Muhammed Afsal, F. Mahaboobi W/o Moideen Khan (Late), Thazhe chambala house. Madapeedika.			
					83/9	83/19	Private	Garden	0.0096		Pullamballi Vasudevan (late). Wife Thattipravan Lakshmi, Sangeeth, Lekha, Champala Veedu, Temple Gate
				83/10	83/20	Private	public way	0.0100	1	Secretary Thalassery Municipality.	
				Private	Garden	2	Janu Kollankandi L.H .Jayasree , Vasantha, Prema, and Selvaraj, Chambala veedu. Madapeedika				
				85/4	85/11	Private	Garden	0.0047		Rayaroth Thazhekuniyil Sreenath., S/o. Madhavan, 'Ashana' P.O. Madapeedkia	
				Kodiyeri/ (Desom Kodiyeri)	59/1E1	59/6	Private	Garden	0.0152		Narayanan, Dechooti, Kuttipura house, P.O. Paral .
					67/2	67/9	Private	Garden	0.3041	1	Manikkoth Raveendranath , S/o. Gopalan, Kottayur Village, Yelagiri, Tamilnad u
							Private	Garden		2	Cheeruti (late) L.H Laksmi, Gouri, Vijayan, Rohini , Nalini, Rathi, Rayaroth (H), P.O. Temple Gate.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Private	Garden		3 P.K.Raghavan,S/o., Karthiyani(late) , P.K. Bharghavi , W/o.P.K.Raghavan , Bhaskaran, Vellaramkadu House, P.O.Paral.	
					Private	Garden		4 Balachandran and others	
					Private	Garden		5 Rayaroth Kudakayi Leela, W/o. Kunhiraman, Rayaroth house, Madapeedika.	
					Private	Garden		6 Prakashan Rayaroth, Kattintavida P.O.Eangeyil peedika	
					Private	Garden		7 Paliyakara Satheesan, S/o.Devaki, Rayaroth House, P.O.Paral.(2) P.K.Rohini,D/o.Kunhikan nan, Nanu.P.K,S/o. Kunhikannan.and others.	
					Private	Garden		8 Paliyakara Pushpalatha, D/o.Devaki, RayarothHouse, P.O.Temple Gate,	
				67/4	67/11	Private	Garden	0.2444	1 Parambath Kuniyil Valsala, Vaparath Rajan. S/o. Achuthan, Puthiya veetil , Madapeedika, P.O.Paral .
					Private	Garden		2 1.Rajan, 2. Dayanandan, 3. Raveendran, ' Puthiyaveetil, ' Madapeedkia.	
					Private	Garden		3 1. Dayanandan, 2.Raveendran., Maroli House, Near Eranholi Bridge, chirakkara.	
					Private	Garden		4 Varaprath Leela,W/O .Krishnan,Kousthubham, Madapeedika	
					Private	Garden		5 Shayamala, W/o Hareendranath , ' Sreehari, ' Madapeedika	
					Private	Garden		6 Hareendranath V.C , ' Sreehari, ' Madapeedika	
					Private	road		7 Secretary Thalassery Municipality.	
				67/5	67/12	Private	Garden	0.0393	1 Padikkal Surendran,S/o. Kunhiraman , Puthiya Veetil House, Madapeedika, P.o.Paral
					Private	Garden		2 Kalankandy Valasan , S/o. Anandan, 'Anand' P.O.Kavumbagam.	
					Private	road		3 Secretary Thalassery Municipality.	
				67/8	67/13	Private	road	0.4584	1 Secretary Thalassery Municipality.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	
						Private	Garden		2	K.E.Janardhanan Nambiar S/oAmmu Amma and others Koroth Edavana Ammu amma(late),Madhavan nambiar(late)
						Private	Garden		3	Koroth Edavana Damaodaran nambiar s/oDevu Amma and others
						Private	Garden		4	Saraswathi D/oDevakiamma, C/oRadhakrishnan,Pulinh oil,Madapeedika.
						Private	Garden		5	Padmini.K.E.,W/o Raghavan,Apsara,P.O.Ka yumbhagam.
						Private	Garden		6	Koroth Edavana Vanaja C/o.M.K.Nambiar,Gokula m,Chirikandoth, Madapeedika,P.o.Paral.
						Private	road		7	Secretary Thalassery Municipality.
						68/2A	68/4		Private	Garden
				68/2B	68/5	Private	Garden	0.0451	1	Kovummal Kunhikandy Rabiya, W/o.Aboobacker.
						Private	Garden		2	Nani Amma and others
						Private	road		3	Secretary Thalassery Municipality.
				68/2C	68/6	Private	road	0.1695	1	Secretary Thalassery Municipality.
						Private	Garden		2	Karuvantavida parambath kandi Aboobacker. S/o Moidu,Subaida Manzil,Madapeedika
						Private	Garden		3	Kurikkalavide Chiruthai, c/o. Bhaskaran, Devaki Amma, Krishnan Nair.
						Private	Garden		4	Sapna D/o Puthusseri manikkoth Bharghavi, 'SAPNA',P.O.Chirakkara
						Private	Garden		5	Puthusseri Manikkoth Bhaskaran S/O M.C.kunhiraman nambiar.Gurukkalavida,P O.Paral
						Private	Garden		6	Secretary Thalassery Municipality.
						68/3A1A	68/7		Private	road
				Private	Garden			2	Lakshmanan.K.P S/o. Kunhiraman and others,'Yesodalayam',P.O.Paral.	
				Private	Garden			3	Soya, W/o Nirmalkumar,'Yesodalaya m'.P.O.paral	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Private	Garden		4 Sagina W/o Pradeepkumar, 'Pranavam', Nr 'Yesodalayam', P.O.Paral
					Private	Garden		5 Kanoth Chankoroth Abooty S/o. Bavachi, 'Dreams', Perimunderi, Pettipalam, New mahe.
				68/3A1B	68/9	Private	Garden	0.0661 Lakshmi.K.P W/o Damodaran(late) and others ,Laksmi Niyas.P.O.Paral.
				68/3B	68/10	Private	Garden	0.2483 1 1.Kamalakshi.A.P. W/o.Phalgunan, 2.Savithri.A.P W/o. Ajayakumar, 'Devakinilayam', P.O.Naluthara Mahe
						Private	Garden	2 Ramachandran.G. S/O Narayanan,Gurukkalavida ,P.O.Paral
						Private	road	3 Secretary ,Thalassery Municipality
				68/3D	68/12	Private	road	0.2226 1 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden	2 Aboobacker Kovummal kunhikkandi,S/o Abu, Bushra Manzil,Edathatta paramb, P.O.Paral
						Private	Garden	3 Balachandran ,S/o Krishnan,'Jubilee',Edatthatta- thazha, P.O. Paral.
				92/1	92/6	Private	Garden	0.2279 1 Kakkadavath satheesh chandran ,S/o. sekharan and others,Naluthara, , Mahe.
						Private	Garden	2 Adv.Rajeendranath and others ,East Namath,P.O.Naluthara, Mahe.
						Private	Garden	3 1) Mohanan.V.V., S/o. late Janu.V.V. and others ,Vannathan Veedu P.O.Paral.
						Private	Garden	4 Rajamani, D/o. Kousallya, Little Flowers Estate , Beenachi, South Wayanad & others
				92/2A2	92/8	Private	Garden	0.3000 1 1.P.P.Padmavathi, 2.Mathu Amma,Thundikandi house,P.O.Kariyad, d/o. Paithal Nair, Puthiya Road, Kariyad south.
						Private	Garden	2 1)Balan S/o. late Ammalu Amma and others i Naduparambath house,P.O.Paral.
						Private	Garden	3 1) Radhakrishnan, S/o. late Devaki Amma and others ,Rayaroth Parambath ,P.O.Paral

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Private	Garden		4 Kelamangalavan Janaki Amma 2)Mohanam S/o. Late meenakshi amma and others ,Dayaroth meethal P.O.Paral,
					Private	road		5 Secretary ,Thalassery Municipality
				92/2A3	92/9	Private	Garden	0.0475 Rohini, D/o Devi and others ,Krishna nilayam,Nr.Sreekrishna bajan samithi,Choodikotta
				92/2B	92/10	Private	Garden	0.0622 1 Sreenivasan S/o. Nani amma(late) and Others
						Private	Garden	2 Narayani and Others, 'Paremmal',Paral
						Private	road	3 Secretary ,Thalassery Municipality
				92/2A1	92/11	Private	road	0.3451 1 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden	2 Parambath Damodaran nair S/o Appa nair alias Ramunni nair Parambath house P.o.Paral
						Private	Garden	3 A.P.Sudheendran, S/o. Achuthan ,Ambalaparambath house P.O.Paral
						Private	Garden	4 Parambath Raghavan Nair S/o Narayanan Nair ,Leerag P.O. Pandakkal
				93/1B1	93/8	Private	Garden	0.2258 1 Thottolil Yesodha W/o Gopalan Thottolil P.O.Paral.
						Private	Garden	2 Thottolil Haridasan S/o Narayanan, Thottolil house P.o.Paral
						Private	Garden	3 Thottolil Kallyani W/o. Narayanan (late) and others ,Thottolil house P.o.Paral
						Private	Garden	4 Thottolil Haridasan S/o Narayanan ,Thottolil house P.o.Paral
						Private	road	5 Secretary ,Thalassery Municipality
				93/2C	93/11	Private	Garden	0.1104 1 Thottolil Janu 2) Ashokan, Thottolil, P.O.Paral
						Private	Garden	2 Thottolil Ajitha ,w/o Chandran ,Thottolil , P.O.paral
						Private	Garden	3 Thottolil Yesodha W/o Gopalan ,Thottolil, P.O.Paral.
						Private	Garden	4 Thottolil Haridasan, S/o Narayanan, Thottolil house. P.o.Paral
				93/2B	93/10	Private	road	0.1015 1 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden	2 Kanattummal Mahesh kumar S/o Vijayalakshmi ,Kanattummal ,Thuvakkunnu, Kolavallur

1	2	3	4	5		6	7	8	9	
				93/3	93/12	Private	road	0.0440	1	Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2	1)T.K.Indrani W/o Kunhikannan(late) and others,Thottolil, P.O.Paral
						Private	Garden		3	Thottolil Sathi W/o Krishnan, Korambath, kappummal.kozhur
				96/2	96/14	Private	Garden	0.0290	1	1)Beena chandrasekharan W/o Chandrasekharan(late) and others"Kulirna" , P.O.Paral
						Private	Garden		2	Saudamini W/o. Balakrishnan and others, 'Pithruchayya', Rayaroth Parambu, P.O.Paral.
				96/11A	96/18	Private	Garden	0.2505	1	Devooti W/o Chindan ,Chandroth P.O.Thazhe chowa
						Private	Garden		2	Rohini D/o late Chirunamkandi thottoli ottapilavan narayani, and others chirunamkandi house ,P.O.Paral,
						Private	Garden		3	C.K.Janaki W/o Balan, Nadukandy house, PO Pathirivad
				96/11B	96/20	Private	Garden	0.2715	1	Chirunam kandi thottoli ottapilavan Rohini
						Private	Garden		2	Thottoli Sathi, W/o.Krishnan Thombath Kappummal.
						Private	Garden		3	Mariyu Kunhi nellikkayil "MEKHINA"JJ road,Thalassery
						Private	Garden		4	Manhu W/O Kader, "Safa" P.O.Paral,
						Private	Garden		5	Devooti W/o Chindan,Chandroth ,Thilannur road, Thazhe Chova, 2 .Nishitha.
						Private	Garden		6	P.K.Saheed , S/o Kader," Safa"(kottoth), PO.Paral
						Private	road		7	Secretary ,Thalassery Municipality
				96/10A	96/16	Private	road	0.0014	1	Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2	Kannan nair ,Thazhe Kunnappadi, P.o.Paral
				96/10B	96/17	Private	road	0.0769	1	Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2	Kannan Nair ,Thazhe Kunnappadi, P.O.Paral
						Private	Garden		3	Madhavan nair,kuniyil house, Nr.pankaj talkies,Nangarath needika
						Private	Garden		4	Surendran S/o krishnan,Kizhakkayil ,P.O.Paral

1	2	3	4	5		6	7	8	9	
				96/12	96/22	Private	road	0.0800	1	Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2	Madhavi, Meethale kunnapadi W/o Kunhikkannan meethale kunnappadi
						Private	Garden		3	Narayani meethale kunnapadi ,W/O Chandu,Thazhe chowa ,Thilannur
						Private	Garden		4	1) Lakshmi 2) Devooti 3) Narayani , Meethale kunnapadi .P.O.Paral
				96/8	96/15	Private	Garden	0.0580	1	1) SurendranS/o. Cheriya ,Kizhakkayil, P.O.Paral
						Private	Garden		2	Devaki Amma ,W/ o Rayarappan , Kizhakkayil, P.O.Paral.
						Private	Garden		3	Padmanabhan,Thankam ,Omana, Sathi, Lakshnman, Pushpavalli,Suresh babu,Chandran,Kalari Parambath house P.O.Paral
				96/13A	96/23	Private	Garden	0.0386	1	Padmanabhan,Thankam ,Omana, Sathi, Lakshnman, Pushpavalli,Suresh babu,Chandran,Kalari Parambath house P.O.Paral
						Private	Garden		2	Balan ,Valiya meethal house .P.O.Paral, 2) Raghavan Kizhakkayil, P.O.Paral
				96/13B	96/24	Private	Garden	0.0406	1	Padmanabhan,Thankam ,Omana, Sathi, Lakshnman, Pushpavalli,Suresh babu,Chandran,Kalari Parambath house , P.O. Paral
						Private	Garden		2	Balan ,Valiya meethal house .P.O.Paral 2) RaghavanKizhakkayil P.O.Paral
				97/12	97/13	Private	Garden	0.0039		R.Geethanjali D/oRamadasan Thyullathil (late),Sreepuram,KSEB Office, Madanpeedika
				98/1A	98/7	Private	Garden	0.0142		Puthalom Kunnath Yesodha W/o Nanu, Vallil parambath (H), Smitha Nivas, Vadiyil Peedkia, P.O.Eranholi
				98/1B	98/8	Private	Garden	0.2711	1	Bhargavi W/o.Govindan and others ,Kappacheri house,P.o.Paral
						Private	garden		2	Balachandran S/o.Gopalan Nair (late) and others
						Private	Garden		3	V.Ramachandran,Kappac heri house , P.O.Paral

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Private	road		4 Secretary, Thalassery Municipality
				98/5	98/10	Private	Garden	0.1131
						Private	Garden	1 K.P.Sainaba and others Juberia, and Saleem., W/o Ummer, kunhiparambath, P.O. Paral
						Private	road	2 C.Suhara, W/o Abooty, Cheriymammal, P.O.Chirakkara 2)K.P.Youself, S/o.Mannu, Thabathul Safa Gramathi
						Private	road	3 Secretary, Thalassery Municipality
				98/6A	98/11	Private	road	0.0656
						Private	Garden	1 Secretary, Thalassery Municipality
						Private	Garden	2 Saraswathi W/o.Sachidanandan and others, Edakkappacheri house P.O.Paral
						Private	Garden	3 P.Vijayan "Sreelaksmi" P.o.Paral
						Private	Garden	4 C.K.Balan S/o Kunhambu Nair, Edakkapacheri house, P.o.Paral
				99/1 i	99/5	Private	Garden	0.3672
						Private	Garden	1 Saleem S/o Hameed, Parentavida, P.O.Palloor
						Private	Garden	2 Eranhimbrath meethal Sreedharan .S/o Sankaran, Gramathi, P.O.C hockli
						Private	Garden	3 Fousiya. D/oSulaikha, Sharfras, Chembra, P.O..P aral
						Private	Garden	4 Palliparambath Majida D/o. Shahida(Late) and Shahid(Minor) Chettukuzhiyil house P.O.Paral
						Private	Garden	5 Rasiya D/O Sulaikha, Sharfras, Chembra, P.O.Paral
						Private	Garden	6 Shahida D/oSulaikha, Sharfras, Chembra, P.O.paral
				99/1M2	99/11	Private	Garden	0.0700
								Koroth Moidu Haji, S/O Eessa, Nafeesa Manzil, P.o.Paral
				99/1L	99/8	Private	Garden	0.0096
								Koroth Moidu haji S/O Eessaa, Nafeesa Manzil, P.o.Paral
				99/1M1	99/9	Private	Garden	0.1273
								Meethale Veetil Soman Master, S/oThattariyil Krishnan Master, and others, Manikkoth House, P.O.Paral
				99/1H	99/3	Private	Garden	0.2150
						Private	Garden	1 Vasantha, W/o. Narayanan (Late) and others
								2 Meethale Veettil Chandran, S/o. Achuthan, Methale veettil, P.O.Paral,

1	2	3	4	5		6	7	8	9
						Private	Garden		3 Meethale veettil Usha, Methale veettil, P.O.Paral,
						Private	Garden		4 Meethale Veettil Shyamala, Methale veettil, P.O.Paral,
						Private	Garden		5 Vasantha W/o.Lakshmanan(late) , and others, Ittiyapalliyil, Kodiyei Near Health Centre,
						Private	Garden		6 Meethal veettil Prakashan,S/o.Lakshmi, , Methal veettil,P.O.Paral,
						Private	Garden		7 Meethal Veettil Chandran, S/o.Thaipoyil Parakandy Achuthan (late) and others.
				99/1N	99/12	Private	Garden	0.2771	1 Ahammed S/o. Pachilagatte Ummerkuty(late) and others, Chalakara, P.O.Nalluthara
						Private	road		2 Secretary ,Thalassery Municipality
				99/1Q	99/13	Private	road	0.1329	1 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2 Pachilagatte Naseema, W/o. Yoosaf , Ninas , P.O.Paral
						Private	Garden		3 K.K.Yashoda,W/o. Gopalan (late), and others Brichilath Meji Nivas. P.O.Paral.
						Private	Garden		4 K.K.Ajitha Kumari, D/o.Gopalan, Meji Nivas, P.O.Paral
				100/3	100/11	Private	publicway	0.0182	1 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2 Subaida W/o Aboobacker Haji and others "ASHYANA" , PO.Paral .
				100/4	100/12	Private	Garden	0.2676	1 Kunhiparal Beebi and others Shameema Manzil. P.O.paral.
						Private	Garden		2 Kunhiparal Safiya, W/o.Abu, Shameema manzil. P.O. Paral.
						Private	road		3 Secretary ,Thalassery Municipality
				100/5	100/14	Private	road	0.1926	1 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2 Hamsa Haji, S/o.Aboobacker, IthMinan. P.O. Paral.
						Private	publicway		3 Secretary ,Thalassery Municipality
				100/7	100/16	Private	road	0.0114	1 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		2 C.H.Naseera (Chettyam kandy) Al-Shifa, P.O.Paral.

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				100/8	100/17	Private	Garden	0.1712	1 C.H.Naseera (Chettyam kandy) Al-Shifa, P.O.Paral.
						Private	road		2 Secretary ,Thalassery Municipality
						Private	Garden		3 P.T. Ismail,S/o. Moidu Haji (Late). and others , Kandoth House, P.O.Paral.
						Private	Garden		4 Kandoth Rasiya, W/o. Aboobacker, Kandoth house, P.O.Paral
						Private	Garden		5 P.T.Usman Kutty, S/o.Moidu haji, Kandoth House, P.O. Paral
				100/9	100/18	Private	Garden	0.0023	Karthiyayani, W/o. nanu and others, Kunhi Midukkantevida, P.O.Paral.
				100/10	100/19	Private	Garden	0.0518	1 Reshma, D/o. Moidu Haji, Nafeesa Manzil, P.O. Paral.
						Private	Garden		2 Koroth Moidu Haji, Nafeeza Manzil, P.O.Paral.
						Private	Garden		3 Shahina, D/o. Moidu haji, Nafeeza manzil, P.O.paral.

[F. No. NHA1/LA-2009/Not/3(A)/KRL/KOZ]

S. S. GULIA, Dy. Secy.